

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2020—पौष 26, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2020

अधि. क्र. 01 एफ 1-53-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर परिषद, लहार, जिला भिण्ड को राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद, घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.